

VIKAS COTECH LTD.

Ph.: +91-1143144444 • Email : info@vikasecotech.com • Website : www.vikasecotech.com • CIN -L65999DL1984PLC019465

September 8, 2020

Listing Compliance Department National Stock Exchange of India Limited. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051 Fax: 022-26598235/36 Listing Compliance Department BSE Limited. Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

NSE Symbol: VIKASECO

Scrip Code: 530961

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation regarding completion of dispatch of Notice of 35th AGM and submission of Newspaper Advertisement made in this regard

Pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Notice calling 35th Annual General Meeting ("AGM") of the Company has been dispatched through CDSL by mail on Monday, September 7, 2020 to all the Members of the Company whose name appeared in the Register of Members as on Friday, September 4, 2020.

The 'Notice of AGM, E Voting information and Book Closure' has been published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers dated Tuesday, September 8, 2020. A copy of the publication in newspapers is attached herewith for your ready reference and record.

The above information is also available on the Company's website at www.vikasecotech.com.

You are requested to take the information on record.

Yours Faithfully. for Vikas Ecotech Limited ELHI Prashant Sajwani Company Secretary & Compliance Officer

Regd. Office : Vikas House, 34/1, East Punjabi Bagh, New Delhi- 110026 (INDIA)

FINANCIAL EXPRESS

Nahar INDUSTRIAL ENTERPRISES LIMITED Regd. Office: Focal Point, Ludhiana - 141 010, CIN: L15143PB1983PLC018321 Phone: 0161-2672590-91; Fax No. 0161-2674072, Website: www.owmnahar.com Email: msood@owmnahar.com ; share@owmnahar.com

NOTICE TO SHAREHOLDER

For Transfer of equity shares of the Company in the Demat Account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Members are hereby informed that pursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended (the rules) that the dividend declared which remained unpaid or unclaimed for the financial year 2012-13, for a period of seven years will be credited to the IEPF Authority, in November, 2020. The detail of such shareholder, whose dividend are due for transfer to IEPF has already made available on the website of the Company at: link: http://www.owmnahar.com/nahar_ie/transfer-of-equity-shares.php.

Further, pursuant to Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 of the Rules framed thereunder, the corresponding shares on which dividend remains unpaid or unclaimed for seven consecutive years will also get due to be transferred as per the procedure set out in the rules. The details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on the website of the Company link: http://www.owmnahar.com/nahar_ie/transfer-of-equity-shares.php.

In compliance of the said Rules, due to extraordinary circumstances i.e. Covid 19 pandemic, the Company has sent individual communication to concerned shareholders whose email id is registered with the Depositories or the Company and whose shares are liable to be transferred to IEPF. The concerned shareholder of the Company is hereby requested to visit the website of the company and claim the dividend declared for the financial year 2012-13 and onwards. In case company does not receive any communication by 25.10.2020, the company with a view to adhering with the requirements of the rules shall transfer the dividend for the financial year 2012-13 and corresponding shares to the IEPF without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. The details uploaded on website in this regard shall be adequate notice to the shareholder. However, upon such transfer, shareholders can claim the transferred shares along with dividends from the IEPF Authority in form IEPF-5, for which details are available at www.iepf.gov.in.

For any information / clarifications on the matter, the concerned shareholders may write to the company at share@owmnahar.com or contact the Company's Registrar and Transfer Agent i.e. Alankit Assignments Limited (Unit: Nahar Industrial Enterprises Limited), Alankit House, 1E/13, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055, Ph. 011-42541234, Email: rta@alankit.com



Shivalik Rasayan Limited Regd. Office: Village Kolhupani, P. O. Chandanwari, Dehradun - 248007 (CIN: L24237UR1979PLC005041) cs@shivalikrasayan.com, Website: www.shivalikrasayan.com NOTICE OF 4210 ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 42rd Annual General Meeting ("AGM") of theMembers of the Company will be held on Monday, September 28, 2020 at 10:00 A.M. at Hotel Saffron Leaf GMS Road Dehradun, Uttarakhand-248146 to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM. The Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on all the resolution as set out in the said Notice.

NATIONAL FITTINGS LIMITED

CIN: L29199TZ1993PLC008034 Regd. Office : SF No.112, Madhapur Road, Kaniyur Village, Via Karumathampatti - 641 659, Coimbatore District. Ph.99432 93000 Email : nationalfittingsltd@gmail.com NOTICE

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "Rules" the Company is mandated to transfer the Dividend for 2012-13 which remained unclaimed for a period of seven years to the IEPF Authority. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules

The Company has communicated individually to the concerned shareholders at their registered address whose shares are liable to be transferred during the financial year 2020-2021 for taking appropriate action and the details of such shares liable to transferred to IEPF are also made available on its website www.nationalfitting.com. Shareholders concerned may refer to the website to verify the details of their unclaimed dividend and shares liable to be transferred Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may be noted that the Company would be issuing duplicate share certificate in lieu of the originals held by them, to convert into DEMAT form and transfer in favor of IEPF. Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice is respect of issue of the duplicate share certificates(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 30th October, 2020, the Company shall transfer the shares to IEPF Authority as per procedure stipulated in the Rules. The corresponding shares on which dividend unclaimed for seven consecutive years shall also be transferred without any further notice.

Please note that no claim shall be against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all the benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules.

For queries on the above matter, the Shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agents at S.K.D.C Consultants Ltd., Kanapathy Towers, 3rd Floor, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore 641006. Phone: +91 422 4958995 / 2539835-836 | Fax: +91 422 2539837. Email: info@skdc-consultants.com

For National Fittings Limited

Place : Coimbatore Date : 07.09.2020



TARAKKI KAREINI

Place : Mumbai

Date : September 7, 2020

ICICI Prudential Asset Management Company Limited Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

(Sd/-)

S Aravinthan

Company Secretary

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice-cum-Addendum to the Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) of the Schemes of ICICI Prudential Mutual Fund (the Fund)

Change in address of the Official Point of Acceptance of Transactions (OPAT) of



the case may be, at the AGM. 4. Remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Sunday, September 27, 2020 and end at 5:00 p.m. (IST) on Tuesday, September 29, 2020. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) on September 29, 2020 and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

September 23, 2020 shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or vote, as

- 5. In case a person has become a Member of the Company after dispatch of the Notice but on or before the cut-off date for remote e-voting, or has registered the e-mail address after dispatch of the Notice, such Member may obtain the user ID and password in the manner as provided in the procedure and instructions of e-voting.
- 6. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC/ OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. 7. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Sharex Dynamic India Private Limited, C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083, Maharashtra ("RTA") having web address http://www.sharexindia.com/ at Email: support@sharexindia.com and evoting@sharexindia.com with a copy marked to the Company at NishiVijayvargiya@in.ab-inbev.com. 8. In case of any query and/ or grievance regarding e-voting or any technical assistance or support for VC/ OAVM participation, Members may contact NSDL at toll free no.: 1800-222-990 or write to them at evoting@nsdl.co.in and Members may also contact Mr. Anubhav Saxena, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 at 022-24994545 or write to him at evoting@nsdl.co.in, for any further clarifications.

Notice of the AGM together with the Annual Report for the financial year March 31, 2020 and procedure of the e-voting has been sent to all the Members in electronic mode whose Email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Notice and the Annual Report for the financial year ended on March 31, 2020 are also available on the Company's website at: www.shivalikrasayan.com and at the website of CDSL: https://www.evotingindia.com

In Compliance the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Company has appointed M/s AMJ & Associates, Practicing Company Secretaries Firm as the Scrutinizer to Scrutinize the e-voting process and voting through Ballot/Polling paper at the venue of the AGM. The details as per the requirement of the Rules are given hereunder:

- A person whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial owner maintained with the depository as on the cut-off date, i.e. September 21, 2020 only shall be entitled to avail the facility for e-voting.
- The e-voting period commences on Friday, September 25, 2020 at 09:00 a.m. and will be ends on Sunday, September 27, 2020 at 5:00 p.m. in term of Rule 20(4)(vi) of the Chapter VII of the Companies Act, 2013.
- The Members who have cast their vote by e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again
- The final dividend, if declared at the AGM, shall be paid/credited on or before October 28 2020 as under to those Members of the Company
- (i) Whose names appear in the Company's Register of Members in respect of shares held in physical form, after giving effect to all valid shares transfers lodged with the Company on or before the close of business hours on Monday, September 21, 2020
- (ii) Whose names appears as beneficial owners in respect of shares held in demat form as per details furnished for this purpose by the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL), as of close of business hours on Monday, September 21, 2020.
- The Members who have not cast their vote by e-voting shall be able to vote at the Meeting through ballot paper.
- Members may contact Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd, for any grievance(s) related to electronic voting by writing to them at beetalrta@gmail.com or calling them on 011-29961281/82 between10:00 A.M.to 5:00 P.M.
- The results of voting would be declared by the Chairman on the date of AGM and the same will also be posted on the Company's website at www.shivalikrasayan.com

Further, Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules there under and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from September 22, 2020 to September 28, 2020 (both days inclusive).

A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend andvote in the Meeting instead of himself/ herself and the proxy need not be a Member. The proxy forms should, however, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

For Shivalik Rasayan Limited

Sd/

Parul Choudhary

Company Secretary

Place: Delhi Date: 07.09.2020

VIKAS ECOTECH LIMITED

CIN:L65999DL1984PLC019465) Regd. Office: 34/1 Vikas Apartments, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026 Email:cs@vikasecotech.com;Website:www.vikasecotech.com, Ph: 011 41344444

NOTICE OF THE 35" ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

- The 35th Annual General Meeting of the Company ("AGM") will be convened on Tuesday, 29th September, 2020 at 11:30 a.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM" Facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8" April 2020, 13" April 2020 and 5" May 2020, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1 CIR/P/2020/79 dated 12" May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEB Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.
- 2. in terms of MCA Circular's and SEBI Circular the Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2019-20 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2020 has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants(s)/RTA. The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular's and SEBI Circular.
- 3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22" September, 2020 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). All the members are informed that:
 - the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM, will be transacted through voting by electronic means;
 - (ii) the remote e-Voting shall commence on Friday, 25" September 2020 at 9:00 A.M.;

Computer Age Management Services Limited (CAMS)	

Investors/Unit holders are requested to note the change in address of the OPAT of CAMS, the Registrar and Transfer Agent of the Fund, as follows:

Old Address	New Address
CAMS SERVICE CENTRE,	CAMS SERVICE CENTRE,
1 st Floor, Above Mahesh Graphics,	35, Behind Hotel Haywizz,
Nandanam Complex, Beside Old CCS	M.A. Road, Phoenix Bay
Building, Junglighat, Port Blair - 744103.	Port Blair - 744 102.
South Andaman	South Andaman
Contact no. : 03192-230306	Contact no.: 03192-230306 / 230506
Email id: camsptb@camsonline.com	Email id: camsptb@camsonline.com

This Notice-cum-addendum forms an integral part of the SID and KIM of the Schemes of the Fund, as amended from time to time.

All other provisions of the SID and KIM except as specifically modified herein above remain unchanged.

> For ICICI Prudential Asset Management Company Limited Sd/-

> > **Authorised Signatory**

No. 004/09/2020 To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

WELSPUN INDIA WELSPUN INDIA LIMITED (Corporate Identity Number - L17110GJ1985PLC033271)

Regd. Office: "Welspun City", Village Versamedi, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat - 370110 Tel: +91 2836 661111 Fax: +91 2836 279010

Corp. Office: Welspun House, 6th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg. Lower Parel, Mumbai, Maharashtra - 400013 Tel: +91 22 66136000, Fax: +91 22 24908021 E-mail: companysecretary_wil@welspun.com; Web : www.welspunindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Tuesday, September 29, 2020 at 04.00 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business. as set out in the Notice of the AGM only through e-voting facility.

The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI. The facility for appointment of proxy will not be available for the AGM. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM.

In Compliance with the Ministry of Corporate Affairs Circular, electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report 2019-20 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at www.welspunindia.com and on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of the National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com. The Company has completed the dispatch of Notice of AGM through email to all the eligible members of the Company by permitted modes on September 07, 2020.

Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register their e-

For Anheuser Busch Inbev India Limited

sd/- Gagandeep Singh Sethi **Whole Time Director** September 8, 2020 Bengaluru, India



ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED

CIN: L27310OR1955PLC000310 Registered Office: Rathod Colony, Rajgangpur, Sundergarh, Odisha 770 017, India Tel. No.:+91 06624 220 332; Fax: +91 06624 220 332 Website: www.electrosteelcastings.com; E-mail: companysecretary@electrosteel.com

CORRIGENDUM TO THE ANNUAL REPORT 2019-20

OF ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED

This corrigendum is being issued in connection to the Annual Report of Electrosteel Castings Limited ('the Company'), for the Financial Year 2019-20, to be considered and adopted by the Members of the Company, at the ensuing Annual General Meeting ('AGM') of the Company, scheduled to be held on Tuesday, 15 September, 2020, at 11:30 a.m., through video conferencing ('VC') or other audio-visual means ('OAVM'), to transact the businesses as mentioned in the Notice of the AGM dated 13 August, 2020. The said Annual Report, along with the said AGM Notice, were despatched to the Members of the Company through e-mail on 19 August, 2020.

The Members of the Company should take note of the following typographical corrections in the aforesaid Annual Report of the Company:

(a) In the 'Management Discussion and Analysis Report', the table appearing under Para E(b) (i.e., Company's Sales mix), on Page No. 19 of the Annual Report, shall be read as:

(Rs. in Crores)

	Year ended 31 March, 2020	Year ended 31 March, 2019
Revenue from sale of Product		20
D.I. Spun Pipes	1,746.59	1,622.91
D.I. Fittings	208.02	253.50
C.I. Spun Pipes	183.61	154.10
Others	296.27	313.25

(b) In Note No. 21 of the 'Notes to Standalone Financial Statements' for the year ended March 31. 2020, appearing on Page No. 121 of the Annual Report, the last two column headings shall be read as 'As at March 31, 2020' and 'As at March 31, 2019', respectively.

(c) In the 'Consolidated Statement of Cash Flow' for the year ended March 31, 2020, under Para A

financia	lexp.ep.m.in				New Delhi				
Place : New Date : 8th \$		For Vikas Ecotech Limited Sd/- Prashant Sajwani Secretary & Compliance Officer	Mumbai, September 07, 2020	Sd/- Shashikant Thorat	Place: Kolkata Date: 7 September, 2020			Compa	Indranil Mitra any Secretary ICSI: A20387
(viii) (ix) (x) (xi)	those Members holding shares in physical form, whose email the Company, may register their email address by sending, letter mentioning name, folio number and complete address PAN Card; and self attested scanned copy of any document Licence, Election Identity Card, Passport) in support of info@alankit.com . Members holding shares in demat form of their Depository Participant. The Register of Members and the Share Transfer books of the Wednesday, 23rd September 2020 to Tuesday, 29th Septemb annual closing. M/s. Kumar G & Co., Practicing Company Secretaries (CO Scrutinizer to conduct e-voting process. The results of e-voting will be placed on the Company's web forty eight hours from the conclusion of the AGM and w exchanges, where the shares of the company are listed. in cas attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.ev or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Da also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to the Company Secretary at the Company's email and also write to	il addresses are not registered with scanned copy of a signed request , self attested scanned copy of the it (such as AADHAR Card, Driving the address of the Member to can update their email address with e Company will remain closed from ber 2020 (both days inclusive) for P: 7579) has been appointed as a osite www.vikasecotech.com within ill be communicated to the stock e of any queries or issues regarding a may refer the Frequently Asked votingindia.com, under help section ct Mr. Nitin Kunder (022-23058738) Ivi (022-23058542). Members may ddress cs@vikasecotech.com	 (e) The voting rights of members shall be in proport off date of September 22, 2020; (f) Any person, who acquires shares of the Con Company after dispatch of the notice and he September 22, 2020, may obtain the login ID a evoting@nsdl.co.in or to the Company/Registra already registered with NSDL for remote e-votin ID and password for casting your vote. (g) A person, whose name is recorded in the registenet to vote on the resolutions to be passed at the to vote on the resolutions to be passed at the to vote on the resolutions to be passed at their vote again. (i) Notice of the AGM and procedure for remote e website www.welspunindia.com and the websit for email at evoting@nsdl.co.in, pallavid@nsdl.co.in or call on 022 2499 4738/ 1800-222-990 for any given and the second to the cast the to the company. 	mpany and becomes member of the olds shares as of the cut-off date i.e. and password by sending a request at ar & Transfer Agent. However, if you are ing then you can use your existing user ister of members or in the register of ies as on the cut-off date only shall be itAGM; te e-voting prior to the General Meeting VC/OAVM, but shall not be entitled to -voting is available on the Company's te of NSDL at evoting@nsdl.co.in; stant Manager, NSDL at Trade World, at Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, n, CompanySecretary_wil@welspun.com rievance(s) relating to remote e-voting. For Welspun India Limited	(d) In the 'Notes to Consolidated Financial heading, on the Page No. 234 of the Arr Financial Statements for the year ended This corrigendum should be read in continu Company, for the Financial Year 2019-20. This will be hosted on the website of the Comp communicated to the Stock Exchanges, when We further inform you that the aforesaid co Account of the Company for the Financial Year out due to inadvertent typographical errors that All the concerned shareholders, stock excha agency appointed for e-voting, the scrutinizer requested to take note of the above. All other contents of the aforesaid Annual Re	March 31, 202 ation to and in corrigendum to any, viz., www re the equity sh rrections do no ear ended 31 M at happened at nges, deposito and other auth	shall be read (Contd.)'. conjunction w the Annual Revelocitor ares of the Co ot impact the S March, 2020. T the time of art- ries, registrar a norities and all	as 'Notes to C with the Annual port 2019-20 of astings.com, b mpany are liste Statement of Pr hese correction working of the A and share trans other concerne nain unchange	Consolidated Report of the f the Company besides being ed. rofit and Loss ns are carried Annual Report. sfer agent, the ed persons are d. tings Limited Sd/-
(vii)	Monday, 28 September 2020 and once the vote on a rest Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the by remote e-Voting prior to the AGM may participate in theA shall not be entitled to cast their vote again through the e- Vo Members participating in the AGM and who had not cast their entitled to cast their vote through e-Voting system during the is recorded in the Register of Members or in the Register of B depositories as on the cut-off date only shall be entitled to a participating in theAGM through VC/OAVM Facility and e-Votin the Notice of the AGM and the Annual Report are available www.vikasecotech.com and the website of BSE Limited at Stock Exchange India Limited (NSE) at www.nseindia.com available on the website of CDSL at www.evotingindia.com	Members who have cast their vote GM through VC/OAVM Facility but ting system during the AGM; c) the ir vote by remote e-Voting, shall be AGM; and d) a person whose name eneficial Owners maintained by the wail the facility of remote e-Voting, ing during theAGM; on the website of the Company at www.bseindia.com and National m. The Notice of theAGM is also	 scrutinize the voting and remote e-voting process. The details of remote e-voting process are as under (a) The Company has completed the dispatch of forms as on September 07, 2020; (b) Remote e-voting will commence on Saturday, ends on Monday, September 28, 2020 (5:00 p.m (c) Remote e-voting module will be disabled on Mo i.e., remote e-voting will not be allowed beyond to AGM, and those Members who will attend the have not caste their vote on the Resolution otherwise not barred from doing so, shall be el during the AGM; 	⁵ Notice of AGM and remote e-voting September 26, 2020 (9:00 a.m.) and n.); nday, September 28, 2020 at 5:00 p.m. the said date and time; will also be made available during the e AGM through VC/OAVM facility and ns through remote e-Voting and are	Less: Increase/(decrease) in inventories Increase/(decrease) in trade receivables Increase/(decrease) in loans and advances, other financial and non-financial assets (Increase)/decrease in trade payables, other financial and non-financial liabilities and provisions	1,42,50.28 (5,92.01) (2,70.44) 53,63.07	1,87,50.90	1,44,19.62 1,34,71.56 532.67 1,52,32.42	4,36,56.27
(vi)	password from the Company/RTA/CDSL as detailed in the noti Members may note that: a) the remote e-Voting module shall Monday, 28th September 2020 and once the vote on a reso	ice; be disabled by CDSLat 5:00 P:M on	forth in the Notice of the AGM through the electror voting'). The Company has appointed Mr. Sunil Zore Company Secretaries (Certificate of Practice No	e, Proprietor of M/s. SPZ & Associates,		For the ye March 3	ear ended 31, 2020	For the ye March 3	200
(iii) (iv) (v)	the remote e-Voting shall end on Monday, 28 th September 202 the cut-off date, for determining the eligibility to vote through Voting system during the AGM, is Tuesday, 22 th September 20 any person, who becomes Member of the Company after sen and holding shares as on the cut-off date i.e. 22 th September	20 at 5:00 P:M.; n remote e-Voting or through the e- 020; ding the Notice of the AGM by email 2020 may obtain the login ID and	mail addresses with respective depository particip physical mode are requested to update their e-mail a Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limit Members holding share in physical form or demate Tuesday, September 22, 2020, may cast their votes	ddresses with Company's Registrar and ted at rnt.helpdesk@linkintime.co.in. rialized form, as on the cut-off date i.e. s electronically on the business as set	(CASH FLOW FROM OPERATING ACTI the entries between 'Operating Profit b from Operations', shall be read as:		성상 2. 전망 2 전망 전 감 전 감 전 것 같아.	nges' and 'Cas	



वानः नई दिल्ली याशिका सिन्हा थि: 7.9.2020 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी एवं अनुपालन अधिकारी प्रियम सं. आइएनसी-26 [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन क्रिया जाने वाला विज्ञापन कंपनी आधिनियम, 2013 की थारा 13 की उपथारा	म, 2013 की बारा 13 के क करती है जिसमें कंपनी "राष्ट्रीय राजधानी प्रवेश राष्ट्रय मं पत्र 05 सितान्य, 2020 व देवक में पारित विशेष रेवक मं पार्य पारित विशेष रेवक मं पार्य अपनि आपति के साथ अपनी आपति के वित्य म 47(1)(क) के अनुसरण में कि जाएगी जिसमें 30 जुन. 2020 को तिमाही के लिए लेखापरीक्षित वितीय परि विश्व संघट कं रुप के जियरडील प्रोपटीज लिमिटेड के रुप के जाएगी जिसमें 30 जुन. 2020 को तिमाही के लिए लेखापरीक्षित वितीय परि विश्व संघट कं अपनुसरण में कथित संघर के अनुसरण में एववती फेयरडील प्रोपटीज लिमिटेड के रुप कते वेरम प्रोपटीज लिमिटेड के रुप कते वेरम प्रोपटीज लिमिटेड के रुप विश्व के अनुसरण में एववती फेयरडील प्रोपटीज लिमिटेड के रुप विश्व के अनुसरण में एववती फेयरडील प्रोपटीज लिमिटेड के रुप कते वेरम प्रोपटीज लिमिटेड के रुप कते वेरम प्रोपटीज लिमिटेड के रुप कर्व साइट www.mseiin पर भी उपलब्ध है। (युवर्वा फेयरडील प्रोपटीज लिमिटेड के रुप स्थान : नई दिल्ली आधाईएन: L74140DL1991PLC34044	Sept, 2020 at 5:00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it shall not be allowed to change subsequently. The Cut-off date for the purpose of e – voting shall be Wednesday, 23" September, 2020. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of AGM of the Company. Person who acquire shares and become member of the company after the dispatch of notice and who are eligible shareholders as on cut-off date i.e. Wednesday, 23" Sept, 2020 may contact Mr. Ravi on (011-40450193) or investors@skylinerta.com to obtain the login id and password. Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. of 29" Sept, 2020. A member may participate in the general meeting even after exercising her/his right to vote through remote e – voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting. Facility for voting will also be made available during the AGM and those present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote through Remote e-voting shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall entitled to avail the facility of remote e – voting. The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in dematerialized mode and for members who have noi updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM. In case of any queries/grievances pertaining to attending AGM and e-voting, you may contact Mr. Ravi, Skyline Financials Services Ltd. at <u>invees- tors@skylinerta.com</u> or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058578) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or M	द्वारा जारी साधारण सक्युंलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 सक्युंलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा सक्युंलर 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 तथा मारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सक्युंलर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 तिथि 12 मई, 2020 के अनुपालन में कान्फ्रेंसिंग द्वारा एजीएम के आमंत्रण अनुमति दी गई है। अतएब, कम्पनी की एजीएम सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये वीसी के माध्यम से आयोपि की जा रही है। 36वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट व्यक्तिगत रूप से केवल उन्हीं शेयरधारकों को ही भेजी जाएगी जिनके ई-मेल प डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेन्ट के पास पंजीकृत हैं। एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी सर्क्युंलर्स के अनुसार एजीएम सूचना की भौति प्रतियों के प्रेषण की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। 36वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.agarwalduplex.net तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसा www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। भौतिक पद्धति में शेवर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते अद्यतन नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि आ नाम तथा सदस्य के पते का उल्लेख करते हुए तथा पैन काई के स्यतः सत्यापित प्रति उपलब्ध कराते हुए हसाक्षरित अनुरोध पत्र को प्रति के साथ agrawalduplex.1984@gmail.com पर कम्पनी के अथ beetalrta@gmail.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेत के साथ agrawalduplex1984@gmail.com पर कम्पनी के अथ beetalrta@gmail.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेत करने वाले सदस्यों तथा ऐत्ते र चात्रेत करने वाले सदस्यों स्र संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराएं। भौतिक पद्धति अथवा डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल प पंजीकृत नहीं कराए हों, के लिए सिमेट ई-वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। दं-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रशनों/समस्याओं के लिये आप श्री पुनीत मित्तल, महा प्रबंधक, बीटल फहानोसियल एंड कम्प्यूटर सवि प्रा.लि. से beetalrta@gmail.com, टेलीफिने न 011-29961281 पर सम्पर्क के अथवा श्री नितिन कुण्डेर (022-23058733 अथवा श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश डाल्वी (9022-2305854) से सम्पर्क करें। अथ www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently
a) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपगिषम (5) के खंड (अ) के मामले में और उपनियम (5) के खंड (3) के मामले में उपनियम (5) के खंड (3)	ा, 2014 के निवम 30 के a) के मामले में a) के मामले में	FOR SHAKUMBHRI PULP & PAPER MILLS LIMITED	D तिथिः ४.९.२०२० (सारको अगरवाल - स्थानः दिल्ली कम्पनी सचि
आर अंजनिल फूड्स प्राईवेट लिमिटेड सका रनिस्ट्रीकृत कार्यालय : 14 एण्ड 15 एक/एफ बेक ईट साईट बेस्ट गुरु अंगद नगर, सब्मी नगर, दिल्ली-110092 रिथत है याचिकाकर्ता विल्ली. दिल्ली-110092 म में स्थि	स प्राईवेट लिमिटेड एफ-9, मुक्ति लागा, बबाक, लब्मी नगर, ईस्ट वेबसाइट: www.imcapitals.c	m, Date : 08.09.2020 Company Secretary	a)
कल्प के संदर्भ मे कंपनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिशन मे तो नवेशक शिकायत प्ररुप फाइले कर एमसीए-21 ते निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 ते निवेशक शिकायत हो के साथ अपनी आपत्ति ते निवेशक शिकायत हो के साथ अपनी आपत्ति ते निवेश के भीतर बी-2 विंग, डितीय तल, पर्यावरण तन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर ते इसकी प्रति आवेदक कंपनी को जनके उपरोक्त के लिए और कंपनी की ओर से जंजनिल फुइस प्राईवेट लिग्टिंड हस्ता./- वि : 08.09.2020 आसोक कुमार जडवाल तन : दिल्ली हीआईएन : 01475762 पता : 13 एस.एस.पी. रोड सिविल लाईनस, गौरखपुर, उत्तर प्रदेश-273001	म. 2013 की याग 13 के ग करती है जिसमें कंपने प्राष्ट्रीय राजवा ने प्रदेश में यागर 13 के राज्य 25 असरक, 2200 की रेड के सार राजवा ने प्रवित्त स्थानांतर में त होता है तो वह व्यकित कर संपर्धा राजवा ने कर स्थानित स्थानांत (स्टेंग्ड अलोन तथा समेकित) प करने तथा अनुमोदन करने के लिए क तथा अनुमोदन करने के लिए क ने देशक मण्डल की बैठक कम्पनी के कार्यालय कर एमसीए-21 क्वयत दर्क राकते है के साथ अपनी आपति के कार कर एमसीए-21 क्वयत दर्क राकते है के साथ अपनी आपति के कार कर एमसीए-21 क्वयत कर सकते है ते साथ अपनी आपति के कार कर एमसीए-21 क्वयत कर सकते है के साथ अपनी आपति के कार कर एमसीए-21 कार्याजत की जायेगी। पुन: सेबी (आत्तरिक व्यापार निषेध) प्र 2015 तथा कम्पनी की ''इनसाइडरों डा की विनियमन, निगरानी एवं प्रतिवेदन की संहता' के अनुसार कम्पनी की प्रतिवेद के साथ अपनी आपति के बाय पुर द राकते है कार्याजत की जायेगी। पुन: सेबी (आत्तरिक व्यापार निषेध) प्र 2015 तथा कम्पनी की ''इनसाइडरों डा की विनियमन, निगरानी एवं प्रतिवेदन की संहता' के अनुसार कम्पनी की प्रतिवेद के साथ अपनी आपति के बाय पुर कर सकते है ती की क्यान का त्य कार्या के लोग से सा प्रारंड कि तिर्ट के साथ प्र प्राया महरू, याज : नई दिल्ली मिंटि : 07.09.2020 रायान : नई दिल्ली संख्या काराय भीहर, याज : नई दिल्ली प्र संख्या कि काराय भीहर, याज : नई दिल्ली मिंटि : 07.09.2020 रायान : नई दिल्ली मिंटि : 07.09.2020 रायान : नई दिल्ली संख्या प्र काराय की प्र त्यात्र के कार्या के तिथि : 07.09.2020 रायान : नई दिल्ली संख शार प्र काराया of the Company will be I Monday, 14 [®] September, 2020 at 2:00P alia, to consider and approve the ur financial results of the Company for ended on 30 [°] June, 2020. The information contained in this notice available on the Company will be I Monday, 14 [®] September, 2020 at 2:00P alia, to consider and approve the ur financial results of the Company for ended on 30 [°] June, 2020. The information contained in this notice available on the Company website at ww group.com and the website of the Stock E BSE Limited-www.bseindia.com. For Hindustan Adhesives संकार प्र वारा प्र वानिय माडा के साल प्र वारा या वाति है कि अय कमारार प्र वारा या वातियम, 2015 के विन	TED Section 10, Perf, Pri, Section 37, Parkadadu, Haryarah 12 1004 Contact No: 9810568630 Email ID: radhamony.nair@gmail.com Website: www.spsintl.co.in Print Notice is hereby given that 27* Annual General Meeting (AGM) of SPS International Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 30* September, 2020, at 03:00 PM. at Plot No. 20 20 ati 10; radhamony.nair@gmail.com Website: www.spsintl.co.in 17747 http://www.spsintl.co.in 187787 Sector-68, IU. MT. Faridabad, Haryana: 121044 18787 http://www.spsintl.co.in 18787 Sector-68, IU. MT. Faridabad, Haryana: 121044 19787 Sector-68, IU. MT. Faridabad, Haryana: 121044 19787 The Notice of AGM. The Notice of AGM together with the Annual Report for the financia year 2019-20 has been sent to all the members who have registered them Members and the Depositories TRA/Company and Whose names appear in the Register of the Members and the Depositories as on 28* August, 2020 by e-mail only pursuant to MCA circular 20/2020 dated 05* May, 2020. The AGM shall be conducted after taking all the necessary precautions required in this COVID 19 Pandemic situation. 19787 Pursuant to the provisions of Section 91 of the Company is and closed from Thursday, 24* September, 2020 to Wednesday, 30* September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM. 101 Haragement and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 24* of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Reguirements) Reg	अनुपालन और निगमित मानलों के मंत्रालय ('प्रस्तीए परिपत्र') द्वारा जारी परिपत्र सं. 14 / 2020 दिनोंक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र सं. 17 / 2020 दिनोंक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पतिन गारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ('सेवी') जी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेवी) हारा जारी परिपत्र सं. SEIMHOCFDLOND/ICIR/P202079 दिनांक 12 स् 2020 के अनुपालन में मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 को सुबह 11.30 बजे कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिय अनुपरिश्वति के बिना वीडियो कांग्रेसिंग ('वीसी') / (अन्य बीडियी बिजुक्रत माध्यमी (अपिर्यीएम) हारा आयोजित की जाएगी। 2. एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में, एजीएम की सुचना व कितीय वर्ष 2019–2020 के लिए वार्षिय ई —ैनल पते कंपने / दिपोजिटरी प्रतिनागियों / आरटीए के साथ पंजीकृत है। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र वं तत्त सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भीतिक प्रति भेजने की आवश्यकता समाएत कर दी गई है। 3. कट—ऑफ डेट अश्वति 22 सितंबर, 2020 तक भीतिक या रे भौतिक रूप में येश रखने वाले सदस्यों के परिपत्र सं उत्तर दुखिरा दि रार्ष्त है। (म्रसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र तत्त सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक परिपोर्ट की भीतिक प्रति भेजने की आवश्यकता समाएत कर दी गई है सार्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') के इलैक्ट्रानिक कार्य में तिर रखने वाले सदस्य से दुखिति की जाता है कि : 1) एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार साधारण व विशेष व्यापार इतैक्ट्रानिक माध्यमों हारा वोटिंग हारा किया जाएगा 2) रिमोट ई —वोटिंग से सुवत तिथा जाता है कि : 1) एजीएम के सुचना में वर्णित अनुसार, 25 सितंबर, 2020 हे 1 3) हिन्में है दीटेंग सोमवर, 28 सितंबर, 2020 हे 1 4) एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम के हारा या रिमोट ई—वोटिंग में मायत होती 1 4) एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम 22 सितंबर, 2020 हे 1 5) ई—मेल हारा एजीएम की सूचना मेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनने वाले और कट—ऑफ डेट अर्थात् 22. सितंबर 2020 तक शेयर रखने हो हो से परि देश्व सिंग, 22 कीरींवर, 2020 है। 6) इं—सेल हारार करकते हैं 1 7) एजीएम के दौरान इ—वोतिय सिंग है चोरिंग में बाय के स्वर्त सात्र को का के के बातन इन का स्वर्ड के सरस वी परितर्तन का अनुमाते नही होगी। बी एजीपिय में सार कर की हो तिकन वे एजीएम को साम है जाने कर को क्तर सरदर्य वर्षा सात्र वार स्वर्य की एजिय के दारार ही सो
पूर्ण आवेदनों को जमा करने की अंतिम तिथि : 14 अ को 15.00 बजे तक है। 3. इसके अतिरिक्त यदि कोई और शुद्धिपत्र / परिशिष्ट होत बैक की वेबसाइट <u>www.rbi.org.in</u> पर उपलब्ध हे 4. बैक कोई भी कारण बताए बिना किसी भी अथवा सर्भ	लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक 15 2020 को 6.00 बजे अप. आयोजित की जायेंग् यह सूचना कम्पनी की (www.sonalmercantile.in) तथा बीएसई की (https://www.bseindia.com) पर उपलब्ध	सेतम्बर, ।) केबसाइट वेबसाइट है तथा)))))))))))))))))))	सिस्टम से एजीएम में भाग लेने और ई—वोटिंग के संबंध में किसी पूछताछ या समस्या के मामले में, आप त्वरित पूछ जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यूज'') और हेल्प सेक्शन के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई—वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई—मेल लिखें या संपर्क करें : श्र नितिन कुंदेर (022–23058738) या श्री महबूब लखानी (022–23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022–23058542 सदस्य कंपनी के ई—मेल cs@vikasecotech.com पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं। बिकास इकोटेक लिमिटेड के लिप्
अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।	स्थानः नई दिल्ली	लामटड रा मिश्रा ो सचिव ते सचिव	
			NR 1000